VISISTH CHAY VYAPAR LTD.

CIN: L15491DL1985PLC019848

Registered Office: A- 446, Basement,
Defence Colony, New Delhi - 110 024

Head Office: 5, Gorky Terrace 2nd Floor, Kolkata - 700 017 Phone: 033-66133300

Fax: 033-66133303

E-mail: corp@citystarinfra.com

Date: 30.05.2019

To
The Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI)
Vibgyor Towers, 4th Floor,
Plot No C 62, G-Block,
Opp. Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400098, India.

Sub: Financial Results- Newspaper Advertisement

Dear Madam/Sir,

With regard to the submission of Audited Standalone Financial Results of the Company for the year ended on 31st March, 2019. Please find enclosed the copy of the advertisement published on Thursday, 29th May, 2019.

The same has been made available on the Company's website at the following weblink http://www.vcvl.in/corporate-announcement.html.

This is for your information and records.

Thank you.

Yours sincerely,

For Visisth Chay Vyapar Limited

Charchal Rungta.

Chanchal Rungta

Director

DIN: 07590027

कार्ति की 10 करोड़ लौटाने संबंधी याचिका खारिज

VISISTH CHAY VYAPAR LIMITED

A-446. Basement, Detence Colony, New Delthi-110024 Email Id: visisthcv17@gmail.com - Phone No: 033-66133300 - Website: www.vcvLin CNN: 115491D11985PLC019848

Into 8: 1:
The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 28th May, 2019.
The above is a nestext of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019 filed with the Stack Exchange under Regulation 33 of the SEBI Clasting and other Disclosures Requirements (Begulations, 2015 are the full Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019 are available on everwarsecial sard were xxxxxx.

Company's translationer Financial Information (Rs. in Islahs) is as below:

Information relating to Total Comprehensive income and Other Comprehensive income are not furnished as Ind 3 is not yet made applicable to Non-Banking Financial Companies. Figures for the Quarter ended 31 is March, 2019 and 31st March, 2018 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.

(CIN: L33302HP1981PLC008123)

Regd. Office: Plot No. 3. Sector – III. Parwanoo. Distr. Solan (H.P.)
Tel.: +91 172 2548223724, Fax: +91 172 2548302
website: www.kddl.com, email td. investor.complaints@kddl.com
STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2019
(Rs. in Lakhs except earnings per

558 2230 1999 548 4942 2524

641 1533 1376 228 2435 1836

1163 1163 1095

test
The Board of Devotors of the Concarny sits moeting hald on 16 Deconster 2018 had approved an agreement for acquestion of a Swissa Match Hearth sensufacturing Company warred "Estima ACT, Allesteeligendrases 30, 2550 Desochers, Sectoristant Servicy) in subsidiaries "Polaria SAT and "North International Foliages SAT. The business propassion was constrained and providing and providing and service with the constraint activational foliages SAT. The business propassion was constrained and service and subsidiaries of SCEARS OF the contractional foliages SAT. The business are subsidiaries of SAT. The service of SAT. The business are subsidiaries of SAT. The service of SAT. The business are subsidiaries of SAT. The service of SAT. The servic

dished state.

With Company 1 and on 29 July 2018 received Ris. 2 200 habits as share application manny towards preferredul allotiment of
146.656 evolvy sharine of Ris. 10 acts against which he Company has during the quarter sharted sharines on 8 October 2018 to 4 cell against which he for being sharine of Ris. 10 acts against which he for Company has during the quarter sharted sharines on 8 October 2018 to 4 cell and 15 acts and 15 a

15542 11929

CIN: L13-4910L1985PLC019848

EXTRACT OF A QUITED STANDALONE FHANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

[Rs. in Lakhs]

Quarte ender | Quarte ender |

(236.27)

(236.27)

(236.27)

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 29 मई।

Notes :-

Profit / (Loss) Before Tax Loss) After Tax

Place : Kolkata Date : 30th May, 2019

Net Profit for the period from ordinary activiti before tax (after exceptional tierns and extraordinary tiens)

Total Comprehensive Income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive excend latter tax).] Paid-up equity share capital (Face value in Rs. 10 per share).

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा विदेश यात्रा के लिए शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए दस करोड़ रुपए लौटाने के लिए दायर उनका कराए गए रार कराड़ रुपए लीयन के लिए रायर उनका आवंदन पूथात को खारिक कर रिशा कार्ति विस्तराम के खिलाफ कई आपणांक मामलों को गीवी आह और प्रवर्तन निरंशालय जांच कर रहा है। प्रधान न्यायाधीण रजन गोगीई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अनकाशकालीन पीज़ ने कार्ति का आवंदन अरगीकार करते हुए उन्हें अपने निर्वाचन केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते की सलाह दी।

Total Income from Operations
Net Profit / Loss for the period
(before lax, Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit / Loss for the period before Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit / Loss for the period before Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
Net (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
(comprising loss for the fire for the period and Other
Comprehensive income (after tax) (sefer oute no. 4)
Net (Loss) for the period after taxes, minority interest
and share of profit / loss of associates
Equity Share Capital
Reseness (excluding Revaluation Reserve)sas shown in
the Audited Balance Sheet of the previous year)
(Earnings per share (for continuing and discontinued
operations) Face Value of Re. 10-7 cent)
Bask & Diluted (* not annualised)
Notes:

PARTICULARS

र निर्मान का अनुवेध किया था। कार्ति ने दावा किया था कि उन्होंने कर्ज पर यह रकम ली थी और वे इस पर ब्याज़ दे रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पीठ ने सात मई की पूर्व केडीय मंत्री पी चिदंबरम के पूत्र कार्ति चिदंबरम को इस साल मई-जून में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूपेन जाने की अनुमति प्रदान की थी।

प्रचान की थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा था - आगेदक
(कार्ति) इस अदालत के सेकेटरी जनरल के यहां दस
करीड़ रुपए जमा कराएगा। जो उसके स्वरंत्र लीटने पर
तापस कर दिया जाएं। श्री अदालत ने इससे क्लीटने जनस्य में कि स्वाचार्य। श्री अदालत ने इससे क्लीटने जनदरी में भी कार्ति को दस करीड़ रुपए अदालत में पीट कारि चिदवम के आयेदन पर युनवाई कर रहा जमा कराने के बाद विदेश जाने की अनुमति दी थी। था। जिसमें उन्होंने विदेश जाने के लिए अटालत की अटालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुगंध पर कार्ति को

12.04 (57.25) (54.93)

9.79 (57.25) (54.93)

9.79 (57.25) (54.93)

(236.27) 9.79 (57.25) (54.93) 1999.90 1999.90 1999.90 1999.90 75.82 75.82 66.02 66.02

> 0.05 (0.29) (0.27)

so below:

Quater ended | Naze ended | Quarter ended |
31-48a-19 | 31-48a-18 |

For Visisth Chay Vyapar Limited Sd/ Tarak Nath Dep

| Guarter | Current | Previous | Duarter | Current | Previous | Current | Previous | Current | Previous | Current | Previous | Pr

ēthos

2518

11978

लिखिन आप्रवासन वामिल करने का निर्देश दिया था कि से भारत लौटेंगे एसख्ता आरवासन बाख्यत करने का निरंश दिश या कि व भारत लाहर और जांच में सहयोग करेंगे। नांच एनंसी का कहना था कि कार्ति चिदंबरम पिछले छह महीने में 51 दिन विदेश में रहे हैं और वे जांच में सहयोग करने की बजाय इसमें विलंब करने का प्रयास कर रहे हैं।

F	OR THE ATTENTION OF THE CREDIT	TORS OF ROYAL WOOD PRIVATE LIMITED						
	RELEVANT PARTICULARS							
1.	Name of corporate debtor	Royal Wood Private Limited						
2.	Date of incorporation of corporate debtor	30th September, 2008						
3.	Authority under which corporate debter is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi, India, under the Companies Act, 1956						
4.	Corporate Identity No./Limited Lieblity Identification No. of corporate debtor	U20212DL2008PTC183837						
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-4/9, fill rd Floor, Mienwali Nagar, Paschim Vihar, Delhi - 110087.						
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	24th May, 2019 (Order received on 28th May, 2019)						
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	19th November, 2019						
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name - Prawincharan Prafutcharan Dwary Reg No IBBUTPA-002/IP-N00331/2017-2018/10937						
9.	Address and e-mail of the interim	487. Akchhat Tower, Pakwan Cross Road, S.G.						

Address and e-mail to be used for correspondence with the interim circle, Nervangpura, Ahmadabad, Guja resolution professional 380014, Email dwaryprawin@gnieil.com resolution professional 380014, Email of Last date for submission of claims 11th June, 2019

representatives are wealther at Notice is barely given that the Vasional Company Lavy Tribunal has ordered the communication of a copposate analysery resolution process of the Reyal wood Private Limited or 24th May 2019 (Other Levevide an 28th May 2019). The creditors of Royal Wlood Private Limited are hereby called upon to submit their claims with pool on before 11th June 2019 to the interior resolution professional at the address mentioned against entity No. 10. The financial creditors shall adult their utilisms with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

(a) www.ibbi.gov.in (b) NOT APPLICABLE

electronic means. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Subminission of false penalties of false penal

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ADVANCE SURFACTANTS INDIA LIMITED

BRIGHT DATE OF THE CREDITORS OF ADVANCE SURFACTANTS INDIA LIMITED

BRIGHT DATE OF THE CREDITORS OF ADVANCE SURFACTANTS INDIA LIMITED

	TODORO OFFICE OF SECTION	Advance Surfactants India Limited
2	Date of incorporation of corporate debter	10/06/1998
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	RoC-Deihi
4.	Corporate Identity No. : Limited Liability identification No. of corporate debtor	J749900L1998PL0396458
5	Address of the registered office and principal office of any) of corporate debtor	511/2/1, Yillage Rajokeri New Defs - 11
8	insolvency commencement date in respect of comporate debtor	28th May 2019
7	Estimated date of dosure of insolvency resolution process	24th November 2019

the and regishation number of the K.G. SOMANI obveroy professional acting as interim. BBEIPA 001/IP P00300/2017-18/10544

Name and registration numbers as the control of the

are evaluate at Molars a hearby given that the Molarsed Company Last Tribunal has ordered the commencement of a countries resolution process of the 60-MolAS SuRFACTIVITIS (MOLAL MITTED The countries of ADMINEST SURFACTIVITIS TO AND LISTED on the resolution professional at a time and any office of the other surfactivities of the countries of ADMINEST surface and surface surface their dataset and ADMINEST SURFACTIVITIS TO AND LISTED on the relation professional at the first Surface and their surface and their surface of the countries of the professional countries and surface are called any full and their surface conditions the public surface and their surface and any surface Surfacessor of this or presenting countries and and surface public Surfacessor of this or presenting countries and and surface public Surfacessor of this or presenting countries and and surface public Surfacessor of this or presenting countries and and surface public Surfaces or this or surface and surface Surfaces or this or surface Surfaces Surfac

Date: 29-55-2019.

Place: New Dehi: interior Resolution Professional of ADVANCE SURFACTANTS INDIA LIMI

PASUPATI SPINNING & WEAVING MILLS LIMITED
Read, Office : Village Kapriwas (Dharubers) Distr. Rewart, Haryana

PARTICIE ARS	3 months			12 months	scept EPS
	ended 31-Mar-19		ended 31-Mar-18	ended 31-Mar-19	ender 31-Mar-1
Total income from		2000		20000000	
operations(net)	2.96?	2.927	3.017	11,568	12,14
Net Profit/(Loss) for the					
period (before Tax and	1 00				-
Exceptional dems;		. 5	5	25	31
Net Profit(Loss) for the period before Tax					
after Exceptional items)		3	5	25	31
Net Profit oss for the			_		
period after tax					
(after Exceptional items)	151	4	39	16	93
Total Comprehensive Income	1				
for the period [Comprising					
Profit(Loss) for the period					
(after tax) and Other					
Comprehensive Income					
(after tax))	24	6	43		- 31
Equity Share Capital	934	934	934	934	93
Reserve excluding Revaluation					
Roserves as per Balance Sheet					
of pravious year					2.20
Earning Per Share					
(for continuing and discontinued					
operations) (before exceptional	1				
Items) (of Rs. 10 each)					
(not annualised)		100	1700		
a) Basic	(0.83)				0.69
b) Diluted	(E 03)	0.02	0.28	9.25	6.6
Earning Per Share (for					
continuing and discontinued					
operations)(after exceptional					
thems; (of Rs. 10 sech)					
(not summansen)	02/22/				1000

aj Basic - Rs. b) Diluted - Rs. (0.03) 0.02 0.39 0.11 (0.03) 0.02 0.39 0.11 the control of the condition of the cond

May 2719 and by the Source of Secretary Plant on American Ber is detected by the Secretary Plant of Secretary Plant on Secretary Plant on Secretary Plant on Secretary Plant on Secretary Plant of Secretary Plant on Secretary Plant of Secretar

Boars is on require or retimed coverage or print for the respective present. The reviews and chief imprinted in the law in the respective principle and of the respective principle and respective principle

आई एम+कैपिटल्स लिमिटेड

आई एम-कापटरूभ ालाभटड पजी कार्यालय 510, अस्थारीय विस्तित, 13 केती मार्ग, मई हिस्सी-110001 CIN: I.74140DL1991PLC3440DT, स्वेदमाईट अल्प्स्थातकाहांबीs.com ईमेल imcapitalslimited@gmail.com, ट्रेली 011-4283833 31 मार्च 2014 को समाप्त विस्तित वर्ष के अंकेडिन र्रदेशस्तिन वर्षा समीकत वितीय प्राप्तिम का विद्याल

क्रम	विकारण		समितित					
#		समाज तिमारी			समाध	वर्ष	गमाल सर्प	
		31 3 2019 आक्रेडिल	31 12 2018 (अनकेशित :	31.3.2015 अस्क्रेडिल	31.3.2019 378kf8pm	31.3.2015 31818#	11 3 2010 प्रकेशित	81 3.2015 झकेशित
	प्रधालमें में कुल आव	\$2.74	82.45	78.67	539 28	35¢ 35	687.92	£18 00
2	कर के जट राज्यान क्रियाकसाधी से शुद्ध लाभ	13.91	14 30	(5:83	K2 44	107 47	156.64	71.85
3	कर के बाद (असरभारत गर्ड के बाद) असपि के	13.91	18.30	(5.83	82.94	107.87	156.58	71.85
4	দিব মুত্ৰ লাখ গ্ৰহণি জ দিব কুল আলফ প্ৰায় (গ্ৰহণি ক দিব (জা ক বাং) বাং গ্ৰহণ আলফ প্ৰায় (কাং ক বাং) বা আদিল কলে আলফ প্ৰায়	2 27	22 01	F6 21	\$6.81	114.74	160.51	78.72
5 6	पदन इक्तिटी होगर पूजी आग प्रति होगर (वासिकीकृत नहीं)	350.16	350. to	350.16	350 '6	350 16	350.16	350 le
	मृत (र.)	0.40	0.52	(0.17)	2.37	YON	4.4%	2.05
	PR (X.)	0.40	0.52	(0.12)	2.37	3.08	4.46	2.05

उपरांक परिणानों की 28 मई, 2019 को आयोजित उनकी संयधित वैदकों में आँडिर कॉपरो द्वारा समीका तथा सिफारिक को गई एव निर्दे मंदल द्वारा अनुमीदित किये गये। 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के गितांव परिणामों को आंविधिक संकें करों ने सीपता स

क है। इस्पेक्स मेरी (मुक्तिन रूपा ध्रम प्रद्वादन अपेका) गिनियान, 2015 के गिनियान 13 के अनीत स्टॉन एकारीजों ये लक्षिण जो अकेपिन देंद्रपूर्णने रूप समेपिक रिमानी एवं वर्षिक पीमामी के पित्तुन प्रक्रम का सर है। अकेपिन देंद्रपूर्णने रूपा समेपिक रित पीमामी का समूर्ण प्रकार स्टीक एकारीज को पैनावॉट www.bseinbla.com रूपा कम्मते को गैनावॉट www.imcapstals.co रर भी पास्त्यक हैं।

KALYANI COMMERCIALS LIMITED Regd. off: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042; CIN: L65923DL1985PLC021453, Ph.: 011- 43063223, 011-47060223 ommercialslimited@gmail.com; Website: www.kalyanicommercialsltd.com Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019

1.		Quarte	rended	Year	(Rs. In Lacs ended
lo.	Particulars	31-03-2019 (Audited)	31-03-2018 (Audited)	31-03-2019 (Audited)	31-03-2018 (Audited)
	Total income from operations (net)	10,008.00	13,902,66	40,160,45	49,558.81
	Net Profit/(Loss) For the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	248.29	399.88	838.01	799.77
3	Net Profit/(Loss) For the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.57	22.02		
	Net Profit/(Loss) after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	13.27	11.79	54,89	51,94
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax).	13.27	11,79	54,89	51.94
,	Paid up equity share capital	100.00	100.00	100.00	100.00
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				
1	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 10/- each) a) Basic:	1.33	1,18	5.49	5.19
	b) Diluted:	1.33	1.18	5.49	5.19
9	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 10/- each) a) Basic:	1,33	1,18	5.49	5.19
	b) Diluted	1.33	1.18	5.49	5.19

South Agantal

South Agantal

(Whole Time Director)

(Whole Time Dir

DIVINUS TABRICS LIMITED

CIV. L51990D 1589PL019733

Registered office: Plot No. 15, B-2, D Block Market, Vivek Vihar Delhi East Delhi Dt. 110995

Email I.D. divinus.fabrica@gmail.com; Website: wnw.divinusfabrica.com

Tel. No.0114330687

Extract of the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended on March 31, 2019
(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

					ur in iskus	
	(Quarter Ende	d	Year Ended		
Particulars	31.03.2019 (Audited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	
Income.						
(i) from operations	0.00	0.00	0.00	0.00	103.58	
(ii) Other Income	9.61	3.22	15.13	19.26	15.57	
Total Income	9.61	3.22	15.13	19.26	119.15	
Net Profit/(bss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.75	0.25	4.50	4.73	2.86	
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinarytems)	4.75	0.25	4.50	4,73	2.86	
Net Profit(lbss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.52	0.25	3.95	3.50	2,12	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.52	0.25	3.95	3.50	2.12	
Equity Share Capital	445,70	445,70	445,70	445,70	445,70	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				38.10	34.60	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-						
Basic	80.0	0.01	0.09	0.00	0.05	
2. Diluted	0.08	0.01	0.09	0.08	0.05	
z. Difficed	0.08	0.01	0.08	0.00	1 0.05	

proce.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/YearlyFinancial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyYearly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange <a href="mailto:englished-processing-englished-p

Place: New Delhi Date: 29th May, 2019

आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिगिटेड

्वणपेरेट महत्त्वन संख्या (शीलाईएन) : L74899DL1993PLC056347 | पंजी, कार्योक्ष्य : र−ली, ध्यम तत, 'जे' स्त्तंक शॉपिंग सॅटर. साकेत. नई दिल्ली−110017 कोन : 0120~4152766, 4193790, नेबनाइट :<u>www.adharshilacapital.in.</u> ई-मैत <u>-adharshilacapital.@</u>g 31 मार्च 2019 को चतर्थ समाप्त विमाही /वर्ष हेत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सक्षिप्त विवरण

6		सिमाही	समाप्त	विल्लीय वर्ष समाप्त		
EI.	विवरण	31.03.2019 (लेकापरीवित्त)		31.03.2019 (लेखायरीक्षात)	31.03.2018 (ले खापरीहित	
1	प्रशासनों से कुल प्राय	12.14	(2.54)	27.28	22.31	
2	अवधि हेतु युद्ध लाग / (जानि) (कर, क्यबाट समा / क्रान्य असाधारण नदी से पूर्वम)	9.57	(9.69)	10.27	(9.30)	
3	अवधि तेतु गुद्ध जाम / (शमि) कर से पूर्व (असवाद तथा / अवस्त असाधारण मदो के परधातक)	9.57	(9.69)	10.27	(9.30)	
	अवधे हेतु सुत्र लाग / (शानि) वस पश्चात (अग्वाद तथा / अथदा असाधारण मदो कं पश्चात्वी)	8.75	(8 84)	9.29	(12.81)	
5	अवधि हेतु कुल समावद्या आय (जिसमे अवधि हेतु लाग / (सामि) (कर पश्चात) तथा सम्य समावेशी अय (कर पश्चात) समितिस है	8.75	(8.84)	9.29	(12.81)	
5	इंक्सिटी संबर पूंजी (ऑकेंस मूल्य रू. 10 / प्रत्येक)	550.00	550.00	550.00	550.00	
,	संपन पुनर्कृत्यन संपंत्र धोतकरः जैला की पूर्व वर्ष के लेळापरीक्षित गुलनपत्र में वार्णया गया है	-	-	30.25	20.96	
8	जी केम कर्णन (क. फ) — प्रत्येक का) (जारी और वेद प्रयासनी हेतू) 1. मुझ - (क. में)	0.16	(0.16)	0.17	(0.23)	
	 शनकत (स. में) 	0.16	(0.16)	0.17	(0.23)	

चरनेका विकास पोर्ट सूर्वाद्यान व्यक्तित वर्षा करनीकरण अधिराश्यक्ति तथा के विशेषक ३३ के कार स्तरेक तथर कर्मात किर पर पानुस किरावी ∕ वर्षाके विशोध भारेगावी के विश्वक वाल्य स्वीवत विकास है, सबूर्व विभावी ∕ तार्यक परिचार्य का पूर्व विकास स्टॉड (स्थासेन्य को वेशसीय: bornalastinis.com) तथा कमार्थ को । brows altavalishasalida) पर पानुस है। स्वातांक्री अपनीत कोर्योच के बेलावान सीरोधों में कोई परिवारत नहीं है।

 मं अपरोक्त अवस्थियों के वीसान काई अपयाद अध्यय असाधारण नर्य मौजूद नहीं हैं : बॉर्ज के आदेश द्वारा वास्ते आधानशिला केपिटल सर्विशेस जिमिटे

Exchange For more debate on author financial results, year meretire may resource unit more framework Results and Corporates section of www.besindus.com and www.neshidus.com.
The above is an extract of the debated format of Austher Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SERI (significant Solitoriane Requirements) Regulation (2015). This self-tomat of the Audited Financial Regulation Regulat

24 NATION

JIYA ECO PRODUCTS LIMITED

Registered Office: Survey No. 202/2/1. Navagam Taluka-Vallabhipur, Bhavnagar, Gujarat-364313 CIN: L01111GJ2011PLC068414. E. cs@jiyaeco.in W: www.jiyaeci

Extract of Statement of Consolidated Audited Financial Results for Quarter and Year ended March 31, 2019

	Consolidated (Amount Rs. in Lakhs)						
Particulars	Quarter Ended 31-3-2019	Quater Ended 31-12-2018	Quarter Ended 31-3-2018	Year Ended 31-3-2019			
Total income	5491	5737	3663	21338			
Net Profit before tax	684	740	597	2703			
Net Profit after tax	535	682	453	1827			
Total Comprehensive Income	534	682	456	1826			
Equity Share Capital	3007	3007	1072	3007			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4569			
Earnings Per Share		day-					
a) Basic	1.86	2.65	1.76	6.34			
b) Diluted:	1.81	2.65	1.76	6.20			
	Standalon	e (Amount	Rs. in Lakh	s)			

Net Profit after tax

Particulars

386 574 1402

Notes:

These results have been prepared in accordance with IND AS notified under the Companies Act (Indian Accounting Standard rules 2015). These results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2019.

For Financial year ended on March 31, 2019, the Board recommended a final dividend of Rs 0.20 per equity share. The payment is subject to the approval of the stane-indeed sin the stressing Annual General Meeting, approval of the stane-indeed sin the stressing Annual General Meeting, and the stane-indeed since the stressing Annual General Meeting, and the stane-indeed since the stressing Annual General Meeting, and Disclosure Requirements Registation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Registations, 2015). The full format of the Quarterly financial results are available on the websites of the Stock exchange and of the Company.

Figures for the period have been regrouped, wherever necessary.

For, Jiya Eco Products Limited Harshil Shah, Company Secretary & Compliance Officer Place : Bhavnagar Date : 28-05-2019

 Quarter
 Quater
 Year

 Ended
 Ended
 Ended

 31-3-2019
 31-3-2018
 31-3-2019

adani Udupi Power Corporation Limited Regd. Office: No. 160. Om Chambers, 2nd Floor, 1st Main Road, Sheshadripuram, Near Total Gaz Pump Rangalore, 560,020

E TENDER NOTICE

UPCL hereby invite Bids for Draft Survey, Coal Sampling and Analysis Services at New Mangaiore Port and Plant (UPCL/03/2019-20) The detail Specification is available on the website https://www.eproc.varinatava.gov.in. All comigendum, addendum, amendments, time extension if any will be placed in the website of www.adainpower.com, no corrigendum will be published in the press Leat date for receipt of Bids: 19 06 2019 at 1700-110.

SHARP INDIA LIMITED

Regd Office : Gat No. 686/4. Koregoan Bhima, Taluka Shirur, Dist : Pune - 412216. hone No. 02137-252417. Fax No. 02137-252453 Website www.sharpindiallimited.com CIN : L36759MH1985PLC036759 NOTICE UNDER SECTION 201(2)(b) OF COMPANIES ACT, 2013

OF COMPANIES ACT, 2013

Notice is neerby given oursaint to section 201(2)(b) of Companies Act, 2013.
("Act") to the members of the Company that the Company, is terms of the resolution passed by the Nominisation and Renumeration Committee and the Board of Directors both at their meeting relief on 29" March 2019 and approval of members in the "Extra Ordinary Reneral meeting relief on 20" May 2019, intends to make an application to the Central Government for its approval under section 199 Fread with schedule V and other application provisions of the Act and rules made the reunufeer for the appointment of Mr. Noski Halszyam (DN. 0.8309564) as Managing Director for the pend of three years effective from 2" April 2019, Any member intending to object the above proposal may communicate in whiting to the Secretary, Minstryl corporate affairs, 5" Floor, Shastri Bhawan New Delhi - 110001.

For Sharp India Limited

For Sharp India Limited

Place : Koregoan Bhima Date : 30.05.2019

For Sharp India Limited Chandranil Belvalkar Company Secretary



THERMAX LIMITED

Regd, Office. D-13, M.I.D.C. Industrial Area, R.D. Aga Road, Chinchwad, Pune – Phone: +91-26-66122100/66155000, Fax: +91-20-66122142– E-mail: cservice@thermaxglobal.com CIN: L29299PN1980PLC022787

NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Notice is hereby given oursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting), Audit, Transfer and Refund, Rules, 2016 (The Rules') the dividend declared for the financial year 2011-12, which remained unclaimed for aperiod of seven years will be credited to the IEPP on September 1, 2019. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Countribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated prediged under the Depositures Act, 1996. The Company has sent separate notices to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate action. The details of the shareholders whose shares are lable to be transferred to IEPF are available on the Company's website hittps://www.thermax.jobbal.com/investor-relations/thermax-investor-education-protection-fund.

education-protection-fund.

Shareholdes holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEEE may note that the Company would be issuing outpitate share comficialety in less of the original health by them for the purpose of transfer of shares to IEEE and upon such issue, the Company shall inform the deposition by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEEE. The origina share certificates with a rengested on the name of original shareholders will stand automatically cannotified and the deemed non-negotiate. Shareholders hallong shares in demanteralized form and whose shares are liable to be transferred to IEEE. may note that the Company shall inform the depositor by way of corporate action for transfer of shares in fevour of the DEMAT account of the IEEE.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF can be claimed from IEPF Authority after following the prescribed procedure under the Rules.

is case the Company does not receive any communication from the oncerned shareholders by August 5, 2019, the Company shall transfer the notalimed dividend and shares to the IEPF as per the Rules by due date i.e. September 1 2019

For any information (canincation on this matter, the shareholders may contact the Company's Register and Transfer Agents at Mis. Karry Fintech Pvt. Ltd., Karry Selenium Tower-6, Plot No. 31 & 32, Gachbowd; Financia Distri

For Thermax Limited,

Kedar P. Phadke

DHARANI SUGARS AND CHEMICALS LIMITED

Regd. Off. 'PGP House', #59 Sterling Ro Nungambakkam, Chennai-600 034. CIN-1.15421TN1987PLC014454 Tel:9144-2831 1313 Fax: 9144-2832 2074 STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

SI	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2019	Quarter Ended	Year to date Sigures 31.03.2019	Year to date figures 31,03,2018
_		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	10883.50	8473.79	31935.24	50534.02
2	Net Profit I (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(3620.00)	(4495,10)	(13089.71)	(8468.72)
9	Net Profit / (Loss) for the period before fax (after Exceptional Items)			(13089.71)	(8468.72)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(3620.00)	(4550.95)	(14932.92)	(8538.05
5	Other comprehensive income (net of tax)	19.76	52.24	54.53	75.00
6	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/floss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]			(14878.39)	18463.05
7	Equity Share Capital	3320.00	3320.00	3320.00	3320.00
8	Reserves(excluding revaluation reserve)	N.A.	N.A.	(9222,95)	5655.44
99	Earnings per share (of Rs. 10)- each; (for continuing and discontinued operations) a. Basic	(10.90)	(13,71)	(44,98)	(25.72
П	ti. Diffused	(10.90)	(13.71)	(44.98)	(25.72

I.The above results for the quarter and year ended March 31 2019 as reviewed and economended by the Audit Committee of the Board risk been approved by the Board of Precious state meeting-lated may 28 2010. I.The Statement has been prepared in accordance with the Companies (inclain Concorning Standards Rules 2019 (the AS) prescribes under Section 133 of the Tompanies Act. 2013 and other recognited accounting practices and publishes.

nen approache. The formal for Audited quarterly results as prescribed in SEBI's Circular RRCFCICAD(15/2015 dated November 30, 2015 has been modified to comply with the quarterments of SEBI's Circular dated July 15, 2015, Ind AS and Schedule III (Part III) to the ompanies Act 2013, which are applicable to Companies that are required to comply with

ntc industries limited

130.03 50.30

119.21 130.03 51.63 356.44

0.03 0.61 0.70 0.03 0.61 0.70

Note: The above Audited financial results have been duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings need on 28th May, 2019. The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results field with the Slock Exchanges the Results of the SEBI (Listing and Other Disdourn Requirements) Regulations, 2019. The regulation 30 of the SEBI (Listing and Other Disdourn Requirements) Regulations, 2019. The regulation of the SEBI (Listing and Other Disdourn Requirements) Regulations, 2018. The regulation of the SEBI (Listing and Other Disdourn Requirements) Regulations, 2018. The regulation of the SEBI (Listing and Other Disdourn Requirements) Regulations, 2019. The regulation of the SEBI (Listing and Other Disdourn Regulation) Regulations of the regulation (Regulation) Regulation Regulation (Regulation) Regulation (Re

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31st, 2019.

[Regulation 52(8), read with Regulation 52(4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

MUTHOOTTU MINI FINANCIERS LIMITED CN: U65910KL1998P.LC012154

Registered office: 2/994, Multiontb Buildings. Kozhencherry, Pathanamithita - 689641, Kerala

Corporate office: Attmototus Royal Towers, Kaloor, Cochin - 682017, Kerala.

Website: www.minimuthoottu.com E-mail: info@minimuthoottu.com Tel. +91 484 291 2100

130.03 50.30 449.44

75.78 307.37

2.86 0.35

212.21

3.36 65,77

821.61 470.49 -116.60 2.112.53 2.074.29 3.207.17 3.032.27

449.44

for DHARANI SUGARS AND CHEMICALS LIMITED Dr. Palani G. Periasamy Exicusive Chairman Din. 00081002

NTC

Total income from operations(net) Net Profit/loss for the period (before Tax, Exceptional and/

or Extra-ordinary items)
Net Profitiloss for the period
(before Tax, after Exceptional and
for Extra-ordinary items)
Net Profitiloss for the period
(after Tax, after Exceptional and

/or Extra-ordinary items)
Total Comprehensive Income for

Comprehensive income (after tax) and other Comprehensive income (after tax) Earnings Per Equity Share (par value of Rs. 10 each) Basic:

Total income from Operations
 Net Profit/(Loss) for the period (before tax

exceptional and / or Extraordinary items)
Net Profit/(Loss) for the period (before tax. after

Inel Profil(Loss) for the period after rax, except and 1 or Estatoristing Member |
Intel Comprehensive income for the period (Comprehensive income for the period (Comprehensive income for the period after tax) Pad up Equity Same Capital Reserves and Surplus (excluding Revaluation) Net Worth |
Net Worth |
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt |
Outstanding Redeemable Preference Shares |
1 have Final's Redeemable Preference Shares

exceptional and / or Extraordinary items Net Profit/(Loss) for the period (after tax, ex

Date: 28,05,2019

ADANI ENTERPRISES ON Wednesday reported a 46.87% jump in its consolidated profit

Statement of Audited Financial R year ended March 31, 2019

Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax

Net Profit / (Loss) for the Penod After Tax

Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the period

eserve (excluding Revaluation reserve) s shown in the Audited Balance sheet of as shown in the Au the previous year

(Exceptional and/or Extraordinary sems)

(After Tax) and other comprehensive I

ncome (After Tax)

Place: Howrah Date: May 29, 2019

201.07 1,110.46

11.62 1,110.46

12.95 861.84

37.10 812.77 392.65

656.62

467,17

368.50

3.65 3.65

For the year

33,260.16

2,482.60

2,482.60

1,424.59

1,24,706.28

4.90

29,612 44

2,578.58

2,578.58

2,095.60

1,10,155.73

2.48

(Before Exceptional and/or Extraordinan Net Profit / (Loss) for the Penod Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items

Adani Ent Q4 profit rises 47%

jumpin its consolidated profit to £266.09 crore for the fourth quarter ended March 31, mainly driven by higher sponding quarter of the previous forms and the consolidated profit of £18117 crore in the corner the company during the quarter character is the company during the quarter character.

Current Quarter Ended

1.47

1,47

For Anubhav Infrastructure Limited Sd/-

Dinesh Agarw

The above is an extract of the detailed format for the year ended March 31, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The All format is also available on the websites of the Stock Exchange(s).

₹13,472.97 crore, from ₹10,577.21 crore in the year-ago period. Total expenses grew to ₹12,975.30 crore, compared with ₹9,601.26 crore

(Rs. In Lakhs)

ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED DR. M. INDUSCORP LIMITED

-711 10	9	1	18B/1, Ground Floor, D.B. Gupt	Road, Dev	Nagar, Kar	of Bagh, Ne	w Delhi-110	1005
for the			Website: www.drminduscorp.co Extract of Audited Financial Resu	m; Email:	Quarter and	d Year end	ed March 3	11, 2019 share data)
	(Fin Lacs)				Quarter Ende	ed	Year	Ended
eceding months	3 Months	St.	Particulars		31.12.2018 (Unaudited)		31.03.7019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
months anded	Enced in the Previous Year	1	Total Income from Operations	78.89	47.30	43.13	221,75	69.99
12 2018 -Audited	31-03-2018 Audited	2	Net Profit/Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.79)	(4.04)	(4.15)	(12.46)	0.95
5.65	19,64	3	Net Profit(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary (tems)	(2.79)	(4.04)	(4.15)	(12.46)	0.95
(0.44)	0.46	4	Net Profit/Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.79)	(4.04)	(4.62)	(12,46)	0,48
(0.44)	0.46	5	Total Comprehensive Income for the period (Compreing Profe(Loss) for the period (after fax) and Other Comprehensive Income (after fax)	(2.79)	(4.04)	(4.62)	(12,46)	0.48
(0.44)	0.20	6	Equity Strare Capital	*783.62	*753.02	763.02	*763.02	763.02
		7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as snown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(498,35)	(482.87)
(0.44)	0.26	80	Earnings Per Share (of Rs. 10)- each) (for continuing and discontinued operations)					

Description of the property of

For Dr. M. Induscorp Limited Sdf

Prem Prakash Managing Director DIN:00289179 Place: New Delh: Date: 29,05,2019

VISISTH CHAY VYAPAR LIMITED

A-446. Basement, Defence Colony, New Delhi-110024 Email ld: visisthcv117@gmail.com - Phone No: 033-66133300 - Website: w CIN: L15491DL1985PLC019848

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
31-Mar-19 (Audited)	31-Mar-19 (Audited)	31-Mar-18 (Audited)	31-Mar-18 (Audited)
11.79	859.26	1136.47	693.69
(236.27)	12.04	(57.25)	(54.93)
(236.27)	12.04	(57.25)	(54.93)
(236.27)	9.79	(57.25)	(54.93)
(236.27)	9.79	(57.25)	(54.93)
(236.27)	9.79	(57,25)	(54.93)
1999.90	1999.90	1999.90	1999.90
75.82	75.82	66.02	66.02
0.05	0.05	(0.29)	(0.27)
	31-Mar-19 (Audited) 11.79 (236.27) (236.27) (236.27) (236.27) (236.27) (236.27) 75.82	31-Ma-19 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (21-7) (25-27) (236-27) (2	3.146.19 3.146.15 3.146.15 4.146.16 4.04161

NOCES : The Sver audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the 1. Bis eld of Directors at their meetings held on 280 HMs, 2019.

The above is an extract of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019 fleel with the Stock Exchange under Requisition 33 of the SEII (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019 are available on newwriteshin and www.vech.

	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
PARTICULARS	31-Mar-19 (Audited)			31-Mar-18 (Audited)
Turnover	11.79	859.26	1136.47	693.69
Profit / (Loss) Before Tax	(236.27)	12.04	(57.25)	(54.93)
(Loss) After Tax	(236,27)	9.79	(57.25)	(54.93)

4. Information relating to Total Comprehensive income and Other Comprehensive income are of the Comprehensive income and Other Comprehensive income are not furnished as Ind AS is not yet made applicable to Non-Banking Financial Companies.
5. Figures for the Quarter ended 31 st March, 2019 and 31 st March, 2019 and 31 st March Quarter of the Counter of th

For Visisth Chay Vyapar Limited Tarak Nath De

Din No. 00343396

Place : Kolkata Date : 30th May, 2019

EON HADAPSAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

CIN : U74210PN2004PTC140101

Regd. Office : Tech Park One, Tower 'E', Next To Don Bosco School, Off. Alrport Road, Yerwada, Pune 411 006. AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

Sr.	Particulars	For the year ended March 31, 2019	(Rs. In Lacs) For the year ended March 31, 2018 (Audited)	
		(Audited)		
1	Total Income from Operations	8,864.91	10,263.21	
2	Net Profit / (Loss) for the period			
	(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	1,205.52	1,723.56	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,205.52	1,723,56	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	755.57	1,262.90	
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)			
	and Other Comprehensive Income (after tax)	755.57	1,262,90	
6	Paid up Equity Share Capital	115.00	115.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8,363.25	7,607.66	
8	Net worth	8,478.25	7,722.66	
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	25,853.72	25,081.21	
10	Outstanding Redeemable Preference Shares			
11	Debt Equity Ratio	14.51:1	12.95:1	
12	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic.	65.70	109.82	
	2. Diluted:	65.70	109.82	
13			-	
14		5,489.07	4,733,48	
15	Debt Service Coverage Ratio	0.88:1	0.17:1	
16	Interest Service Coverage Ratio	1.76:1	1.75:1	

- The above Financial results have been prepared as per the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and have been reviewed and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2019.
- The above is an extract of the detailed format of annual financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations), 2015. The full format of the annual financial results are available on the websites of the BSE Limited.
- For the items reterred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the perifrent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.besindia.com.
- Due to inadequacy of profits, the Company has not been able to create Debenture Redemption Reserve as required in terms of Section 71 of the Companies Act, 2013. 5 The figures for the corresponding previous period have been regrouped / restated wherever necessary to make them comparable.
 For end on healf of the Board of Director
 - For and on behalf of the Board of Directors of Eon Hadapsar Infrastructure Private Limited Darehan Ch

- 10 Outstanding Redeemable Pre
 11 Debt Equity Ratio
 12 Earnings Per Share (in Rs.)
 1. Basic
 2. Diulted
 13 Capital Redemption Reserve
 14 Debenture Redemption Reserve 8.564.08 In Journal Results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director of the company in their respective meeting held on 28th May 2019 37 the Board to not recommended payment of any product using the year 31 the Company has provided operation based on the usual hard not recommended payment of any product using the year 31 the Company has provided operation based on the usual hard not selected in school lief the Company Act 2013 11 the verticing results have been arrived at after considering provisions for standard 6 however necessary to confirm to current year greentation.

 1. Condit Rating - 100 BBHS -Space Outcomes and 14th August 2018 (YCCI) is If, N and VI)

 - CARE BBHS -Stake Outcomes and 14th August 2018 (YCCI) is If, N and VI)

 2. Deat County Rating - 100 BBHS -Stake Outcomes (-100 BBHS) - 100 BBHS -

	NCD I	NCD II	NCD III	NCD IV	NCD V	NCD VI
Previous due date for payment of principal along with interest	27/03/2017 INE101Q07052 INE101Q07060 INE101Q07078		11/05/2018 INE101Q07177	08/10/2018 INE101Q07227	25/08/2018 INE101Q07250 INE101Q07268	27/01/2019 INE101Q07326 INE101Q07334

(i) Next due date for payment of Interest - 01/04/2019
(ii) Next due date for payment of principal along with interest.

	NCD I	NCD II	NCD III	NCD IV	NCD V	NCD VI
Next due date for payment of principal along with interest	27/09/2019 INE101Q07086	04/02/2020 INE101Q08019	11/05/2020 INE101Q08027 INE101Q08043 INE101Q08050		25/05/2019 INE101Q07276	27/03/2020 INE101Q07342

Debenture Redemption Reserve - Rs. 8,564.08 Lakhs.
 Net worth - Rs. 44,280.10 Lakhs.
 Net Profit after tax - Rs. 2,095.60 Lakhs.
 Seamings per Share - Rs. 8,40 (Basic & Diluted) (Face Value Rs. 100)

For Muthoothy Mini Financiers Limit